

Class - vii

Subject - 2nd Language Hindi

Chapter - गंवई राम

Answer Key

प्र 1. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

उत्तर 1. गंवईराम के पास थोड़ी थी खेती थी, जिससे किसी प्रकार उसके परिवार का गुजारा हो जाता था।

उत्तर 2. शहर पहुंचकर जब गंवई राम ने वहां की चकाचौंध देखी तो, उसकी आंखें चौंधिया गईं। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सरपट भागती मोटर - कारें, इतनी भीड़ -भाड़ देखकर वह दंग रह गया।

उत्तर 3. होटल में सब लोग गंवई राम को आंखें फाड़ कर खाता हुआ देख रहे थे क्योंकि गंवई राम आधे आधे घंटे से खाने में जुटा हुआ था। बीस रोटियां , आधा किलो सब्जी और चार प्लेट दाल खा चुका था और अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था।

उत्तर 4. रात को होटल बंद हुआ तो गंवई राम थक कर चूर हो गया था । वह सोचने लगा पंडित जी ने किस मनहूस घड़ी में आने का मुहूर्त निकाला, जो ऐसी मुसीबत में आ फंसा। इससे तो अच्छा था कि गांव में रूखी सूखी खाकर गुजारा करता। कम से कम आजादी तो थी और वहां लोगों के साथ हंसते-बतियाते दिन कैसे बीत जाता, पता ही नहीं चलता था।

उत्तर 5. गंवई राम ने बिल्ली को जो लाठी फेंक कर मारी थी, वह एक चोर के सिर पर लगी थी और वह वहीं ढेर हो गया था। दूसरा चोर, जो गंवई राम की चारपाई के नीचे छिपा हुआ था, गंवई राम के धम्म से चारपाई पर सोने के कारण दबकर बेहोश हो गया था।

प्र.2 शब्दार्थ लिखिए-

1. कौतूहल = आश्चर्य
2. दंग रहना = हैरान होना
3. अचरज = हैरानी , आश्चर्य
4. सरपट = तेज दौड़ती
5. थक कर चूर होना = बहुत थकना

प्र 3. नीचे दिए गए अवतरण के प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

उत्तर 1. गंवई राम गांव का एक सीधा साधा व्यक्ति था। लंबा चौड़ा डीलडौल, बड़ी बड़ी काली घनी लच्छेदार मुँह, सफेद सूती लंबा धोती-कुर्ता पांव में लंबी नोक वाली चमड़े की जूतियां और हाथ में तेल पिलाई हुई मजबूत लाठी। यह थी वेशभूषा गंवई राम की।

उत्तर 2. गंवई राम के पास थोड़ी सी खेती थी, उसी से किसी प्रकार उसका गुजारा चलता था। पर इधर कुछ समय से महंगाई बढ़ रही थी। थोड़ी सी खेती थी, वह भी मौसम के भरोसे। गांव में आय का अन्य

कोई साधन नहीं था इसलिए गंवई राम ने कुछ लोगों की सलाह पर शहर जाकर धन कमाने का निश्चय किया।

उत्तर 3. गंवई राम ने शहर जाने के लिए पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाया। गठरी में अपना एक जोड़ा धोती कुर्ता बांधा और उसकी पत्नी ने रास्ते के लिए पूरी सब्जी बांध दिया और अपना ध्यान रखने के लिए कहा।

उत्तर 4. वाक्य बनाओ-

1. पगडंडी- बरसात के दिनों में गांव की पगडंडी में गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल होता है।
2. पेट में चूहे कूदना- मोहन ने दिन भर से कुछ नहीं खाया है अभी उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं।